



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2005 (कार्तिक 21, 1927)
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2005 (KARTIKA 21, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1101	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1079	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	13	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	2199	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1799
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	577
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2805
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	315
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1101	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1079	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	13	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	2199	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1799
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	577
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	2805
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	315
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folio not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

संकल्प

सं. ई-11011/6/2003-हिन्दी-2--भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के संकल्प संख्या ई-11011/7/98-हिन्दी-II दिनांक 17 अक्टूबर, 2000 के अंतर्गत गठित हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित समिति की संरचना एवं कार्य आदि निम्न प्रकार होंगे :

(1) संरचना

ग्रामीण विकास मंत्री	अध्यक्ष
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य	
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित	
1. श्री जय प्रकाश, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थानीय पता--9, बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली स्थायी पता--पटियाला चौक, जीन्द (हरियाणा)	सदस्य
2. श्री गिरधारी लाल भार्गव, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थानीय पता--6, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 स्थायी पता--कान महाजन का बड, पुरानी बस्ती, जयपुर (राजस्थान)	सदस्य
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित	
3. श्री रामबल्लभ सिंह वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
4. श्रीमती बिम्बा रायकर, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
5. श्री रामेश्वर उरांव, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
6. श्री डी. के. अदिकेसावुलु, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित	
7. डॉ. तेजस्वनी कट्टीमनी बी-1, अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, श्रीनगर सर्कल, धारवाड़-580003 0836-2472121	सदस्य

8. श्री राजेन्द्र अवस्थी
एफ/12, जंगपुरा एक्सटेशन,
नई दिल्ली-110014
फोन. 24315063 सदस्य
9. प्रो. नंद किशोर शर्मा, पूर्व प्राचार्य,
लंगट सिंह कॉलेज, चक्कर मैदान,
आर्मी रिक्रूटिंग आफिस के पास,
मुजफ्फरपुर (बिहार)
फोन 0621-2213856 सदस्य
10. श्री उमाकान्त राय प्रलयंकर,
पूर्व प्रोफेसर,
आर.डी.एस. कालेज,
मिश्रा टोला, गनीपुर,
मुजफ्फरपुर (बिहार)
फोन 0621-2241384 सदस्य

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

11. श्री जे.एस. रामदास,
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा,
त्यागरायनगर, चेन्नै - 600 017 (तमिलनाडु)
फोन नं.-24348420, 24331565 सदस्य
फैक्स नं.-24348420

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद का प्रतिनिधि

12. श्री संतोष कुमार शर्मा,
38, अनामिका अपार्टमेंट,
पटपड़गंज, दिल्ली-110096
फोन नं.-22446119 सदस्य
मोबाइल नं. 9818318814

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

13. प्रो. एस.वी. माधव राव,
ए.यू. प्लॉट 77,
सेक्टर-11, डी.नं. 2-49-1
एम.वी.पी. कालोनी,
विशाखापट्टनम-530017(ए.पी.) सदस्य

14. श्री बी.डी. कदम,
माऊली, बहीरजी नगर,
कॉलेज रोड, बसमत, तालुक बसमत
जिला हिंगोली
महाराष्ट्र

सदस्य

15. श्री सैय्यद महेमूद सैय्यद सैदू,
“राज” नंदुरबारी,
सीता नगर गल्ली, मु.पो. अक्कलकुवा,
जिला नंदुरबार-425 415
महाराष्ट्र

सदस्य

सरकारी सदस्य

- | | |
|---|------------|
| 16. सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) | सदस्य |
| 17. सचिव (पेयजल आपूर्ति विभाग) | सदस्य |
| 18. भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग | सदस्य |
| 19. अपर सचिव, भूमि संसाधन विभाग | सदस्य |
| 20. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय | सदस्य |
| 21. महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद | सदस्य |
| 22. महानिदेशक, लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपाट), नई दिल्ली | सदस्य |
| 23. संयुक्त सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास मंत्रालय | सदस्य सचिव |

(2) समिति का कार्य

इस समिति का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय में, संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम/नियमों के उपबंधों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में तथा मंत्रालय के काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के मामले में सलाह देना होगा।

(3) कार्यकाल

समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगा, किन्तु :

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रह सकेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं।
- (ग) यदि किसी सदस्य के त्याग पत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

(4) सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर समिति अपनी बैठकें अन्य स्थानों पर भी कर सकती है।

(5) यात्रा भत्ता व अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को दिनांक 22 जनवरी, 1987 के राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/4/86-रा.भा.(नी.-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दरें एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेतन तथा लेखा कार्यालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नीलम साहनी
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2005

सा.का.नि.सं.एफ 9-14/2005-एम.1: केंद्र सरकार, इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी, इलाहाबाद के संगम ज्ञापन का धारा 24 और धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी के साथ उचित परामर्श करने के पश्चात्, इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी के नियम 22 (viii) के अंतर्गत बनाए गए, निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी के पद के लिए यथा संलग्न भर्ती नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित करती है।

इन नियमों को निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी, 2005 के पद के लिए भर्ती नियम (संशोधित) कहा जाएगा।

ये नियम तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अंजू भल्ला
अवर सचिव

निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के पद हेतु भर्ती नियम

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
निदेशक	एक (2005) कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	समूह "क"	14,300-400-18,300 रु.	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अनधिक (केंद्र/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संग्रहालय में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नियमानुसार शिथिलनीय)।
क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमवली 1972 के अंतर्गत स्वीकार्य होगा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता, पदोन्नति के मामले में लागू होगा	परिबीक्षा, यदि कोई हो, की अवधि	भर्ती का तरीका : क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	
7	8	9	10	11	
हां, जहां कहीं लागू हो।	अनिवार्य : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला के इतिहास, संस्कृत/पाली/प्राकृत/भ्यूजियोलॉजी के संयोजन के साथ फारसी (शास्त्रीय) में विशिष्टता सहित भारतीय इतिहास अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान में किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य ऑनर्स उपाधि। 2. शोध अनुभव (दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे)। 3. किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर 5 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव सहित किसी प्रतिष्ठित संग्रहालय में 10 वर्ष का अनुभव। 4. भारतीय पुरावस्तुओं, पुरातत्व विज्ञान, संग्रहालय प्रकाशन, भारतीय कलाओं और सज्जात्कम कला का ज्ञान। 5. विद्वतापूर्ण प्रकाशन।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन (कम अवधि की संभिदा सहित) द्वारा।	

7	8	9	10	11
	<p>वांछनीय :</p> <ol style="list-style-type: none"> संग्रहालयों के संबंध में विदेश में अध्ययन, संग्रहालय विकास के लिए विख्यात कम से कम 2 देशों की यात्रा। म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा अथवा समतुल्य, म्यूजियोलॉजिकल दर्शन और तकनीक का ज्ञान और उसमें अनुभव। <p>टिप्पणी : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर अर्हताओं में ढील दी जा सकती है।</p>			
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	आमेलन द्वारा भर्ती के मामले	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
12	13	14		
आमेलन/प्रतिनियुक्ति :	चयन समिति :		आमेलन हेतु प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए संस्कृति मंत्रालय को भेजा जाएगा।	
केन्द्र/राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों/केन्द्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी :	<ol style="list-style-type: none"> अध्यक्ष, इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी एक सदस्य, सोसाइटी की कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। दो विशेषज्ञों की सिफारिश, सोसाइटी द्वारा की जाएगी और भारत सरकार द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा। भारत सरकार का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के पद का न हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ऐसा सदस्य सोसाइटी द्वारा मनोनीत किया जाएगा, जो प्रोफेसर (भारतीय विश्व-विद्यालय) अथवा संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पद से नीचे के पद का न हो। 			
(i) जो समकक्ष पद धारण किए हों, अथवा				
(ii) जिन्होंने 12,000-16,500/- रु. अथवा समतुल्य वेतनमान वाले पदों में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, या				
(iii) जिन्होंने 10,000-15,200/- रु. के वेतनमान में कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।				
जिनके पास भर्ती नियमों के कॉलम 8 में उल्लिखित, सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता तथा अनुभव हों।				
(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)				
(प्रतिनियुक्ति/आमेलन हेतु अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष होगी।)				
(आयु की गणना आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तारीख से की जाएगी।)				

दिनांक 7 अक्टूबर 2005

सा. का. नि. संख्या एफ. 10-26/2004/एम. I—

सा. का. नि. संख्या ...४..... राष्ट्रपति, राष्ट्रीय कला-इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली के संगम ज्ञापन के अनुसरण में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन होने तक के लिए, जो भी पहले हो, इस संस्थान के प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं। प्रबंधन बोर्ड की संरचना इस प्रकार होगी।

क्र. सं.	संरचना	स्थिति	मनोनीत सदस्य
1.	उपाध्यक्ष	पदेन	महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय और संस्थान के कुलपति
2.	निदेशक	पदेन सदस्य	निदेशक, एन एम आई
3.	शैक्षणिक मामलों के संकाय-अध्यक्ष और संस्थान के एक विभागाध्यक्ष को कुलपति की सिफारिश पर अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा (क्रमावर्तन द्वारा)	पदेन सदस्य	शैक्षिक मामलों के संकायाध्यक्ष और कला इतिहास विभाग की अध्यक्ष (डॉ. अनूपा पांडे)
4.	केन्द्र सरकार के उस विभाग, जो संस्थान के कार्यों की देख-रेख करता हो, के दो नामित व्यक्ति जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होगा।	-वही-	i) वित्तीय सलाहकार (संस्कृति) ii) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय के संग्रहालय प्रभाग के प्रभारी
5.	शिक्षा विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि	-वही-	डॉ. डी. के. पालीवाल, उप शिक्षा सलाहकार शिक्षा विभाग
6.	किसी ऐसे विश्वविद्यालय जो इन विषयों में शिक्षा पाठ्यक्रमों को चलाया करता है, के कुलपति को, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।		प्रो. असीस कुमार बनर्जी, कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय

- | | | |
|-----|---|--|
| 7. | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि। | प्रो. आर. जी. पांडेय, सेवानिवृत्त निदेशक, पारस्या निकेतन ऑफ एडवांस स्टडीज इन इंडोलॉजी एंड आर्किटेक्चर, बिड़ला म्यूजियम, लक्ष्मी नारायण गिरि, भोपाल-462004 (मध्य प्रदेश) |
| 8. | तीन प्रख्यात विद्वान/प्रशासक, सदस्य जिनको केन्द्र सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। | i) प्रो. ए. रामचंद्रन, प्रख्यात चित्रकार
ii) प्रो. के. एम. श्रीमाली, इतिहास के प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
iii) डॉ. गौतम सेनगुप्ता, पुरातत्व और संग्रहालय, पश्चिम बंगाल सरकार |
| 9. | i) महानिदेशक, पदेन सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ii) महानिदेशक, भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण
iii) निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, दिल्ली
iv) निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार
v) निदेशक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ | i) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ii) महानिदेशक, भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण
iii) निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (दिल्ली)
iv) निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार
v) निदेशक, एन आर एल सी |
| 10. | कुल सचिव, राष्ट्रीय संग्रहालय गैर-सदस्य संस्थान सचिव | कुल सचिव, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान अंजू भल्ला
अवर सचिव |

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 20th October 2005

1, New Delhi
20 Oct. 2005**RESOLUTION**

No. E-11011/6/2003-Hindi-2 The Govt. of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Rural Development constituted vide resolution No.E-11011/7/98-Hindi-2, dated 17-10-2000 The composition and functions etc. of the Samiti shall be as under:-

(1) COMPOSITION

Minister of Rural Development

Chairman

Minister of State for Rural Development

Vice Chairman

NON OFFICIAL MEMBERS**Nominated by the Committee of Parliament on Official Language**

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Shri Jai Parkash, M.P.(Lok Sabha) | Member |
| | Local Add.- 9, B.D. Marg, New Delh | |
| | Permanent Add. - Patiala Chowk, Jind (Haryana) | |
| 2. | Shri Girdhari Lal Bhargav, M.P.(Lok Sabha) | Member |
| | Local Add.- 6, Ashok Road, New Delhi-110001 | |
| | Permanent Add.- Kaan Mahajan Ka Bad Purani Basti Jaipur(Rajasthan) | |

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

- | | | |
|----|---|--------|
| 3. | Shri Rambaksha Singh Varma, M.P.(Rajya Sabha) | Member |
| 4. | Smt. Bimba Raikar, M.P.(Rajya Sabha) | Member |
| 5. | Shri Rameshwar Oraon, M.P. (Lok Sabha) | Member |
| 6. | Shri D.K.Adikesavulu, M.P.(Lok Sabha) | Member |

Nominated by the Ministry of Rural Development

- | | | |
|----|--|--------|
| 7. | Dr. Tejaswani Kattimani,
B-1, Annapurna Apartments,
Sri Nagar Circle,
Dharwar - 580 003.
Ph. 0836- 2472121 | Member |
| 8. | Shri Rajendra Awasthy,
F/12, Jangpura Ext. ,New Delhi- 110014
Ph. 24315063 | Member |

9. Shri Nand Kishore Sharma, Former Principal
Langat Singh College, Chakkar Maidan,
Near Army Recruiting Office,
Muzaffarpur
Ph. 0621-2213856 Member

10. Sh. Umakant Ray Pralayankar Member
Farmer - Professor
R.D.S. College,
Mishra Tola, Ganipur,
Muzaffarpur, Bihar
Ph-0621 - 2241384

Representatives of Hindi Organisations

11. Shri J.S. Ram Das, Member
Dakshin Bharata Hindi Prachar Sabha,
Tyagrai Nagar, Chennai-600017 (Tamilnadu)

12. Shri Santosh Kumar Sharma, Member
38, Anamika Apartment,
Patpar Gang, Delhi-110093

Nominated by the Deptt. Of Official Language

13. Prof. S.V. Madhava Rao,
A.U. Plot 77,
Sector XI, D.No. 2-49-1
M.V.P. Colony,
Visakhapatnam-530017 (A.P.) Member

14. Shri B.D. Kadam,
Mauli, Bahirji Nagar,
College Road, Basmat, Tq. Basmat,
Dist. Hingoli,
Maharashtra. Member

15. Shri Saiyed Mehmud Saiyed Saidu
"Raj" Nandurbari
Sita Nagar Gali,
M.P.O. Akkalakuva
Dist. Nandubar-425 415
Maharashtra. Member

Official Memers

16. Secretary (Deptt. Of Rural Development) Member
17. Secretary (Deptt. Of Drinking water supply) Member
18. Secretary (Deptt. Of Official Language) & Hindi

	Adviser to the Govt. of India.	Member
19.	Additional Secretary, Deptt. of Land Resources	Member
20.	Additional Secretary & Financial Advisor(Rural Development)	Member
21.	Director General, National Institute of Rural Development, (NIRD) Hyderabad	Member
22.	Director General, Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART), New Delhi	Member
23.	Joint Secretary (Admn.), Ministry of Rural Development	Member-Secretary

(2) FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

The functions of this Committee will be to render advice to the Ministry of Rural Development on the implementation of various provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Language Act/Rules, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language) in this regard and on matters relating to progressive use of Hindi for Official purposes.

(3) TENURE

The tenure of the Samiti will be three years from the date of its constitution provided that:

- (a) A Member of Parliament who is a member of the Samiti shall cease to be a member of the samiti as soon as he ceases to be the Member of Parliament.
- (b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold offices by virtue of which they are members of the Samiti.
- (c) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member so nominated in that capacity shall hold office of the residual term of the Samiti.

(4) GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

(5) TRAVELLING & OTHER ALLOWANCES

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of Hindi Salahkar Samiti as per guidelines contained in O.M.No.11/20034/4/86-Ra.Bha.(Ni.-2) dated 22nd January, 1987 of the Deptt. of Official Language and according to the rules and rates as amended by the Govt. of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Samiti, all State Govts. and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, all Ministries and Departments of the Govt. of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Pay & Accounts Office of the Ministry of Rural Development and Attached and Subordinate offices under the control of the Ministry of Rural Development.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NILAM SAWHNEY
Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 30th August 2005

G.S.R. No.F. 9-14/2005-M.I : In exercise of the powers conferred by Section 24 and Section 48 of the Memorandum of Association of the Allahabad Museum Society, Allahabad, the Central Government, after due consultation with the Allahabad Museum Society, hereby amends the Recruitment Rules for the post of Director, Allahabad Museum Society, framed under Rules 22 (viii) of the Allahabad Museum Society as enclosed, for notification in the Gazette of India.

These Rules will be called the Recruitment Rules (Amended) for the post of Director, Allahabad Museum Society, 2005.

These Rules shall come into force with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of the Notification be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India and to all State Governments and Union Territories.

Ordered also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

ANJU BHALLA
Under Secy.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR, ALLAHABAD MUSEUM ALLAHABAD

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972
1	2	3	4	5	6	7
Director	One (2005) Subject to variation depending on the work load	Group "A"	14,300-400-18,300	Not Applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable up to 5 years for those who are in regular service in a Museum under the control of Central/State Government or for the SC/ST candidates as per Rules).	Yes, wherever applicable.
Educutional and other qualifications required for direct recruitment				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by deputation/ absorption & percentage of the posts to be filled by various methods
8				9	10	11
Essential :				Not applicable	Two years	Direct Recruitment failing which by Deputation/ Absorption (including short term contract).
1. Mater's or equivalent honours degree of a recognized university in Indian History or Ancient Indian History, Culture & Archaelogy, Archaelogy, History of Art, or Fine Arts with specialization in History of Art, Sanskrit/ Pali/Prakrit/Pensian (Classical) with combination of Museology.						
2. Research experience (Documentary evidence to be produced).						
3. 10 years experience in Museum of Standing including 5 years administrative experience in a responsible post.						
4. Knowledge of Indian antiquities, Archaeology, Museum's Publications, Indian arts and Decorative Art.						
5. Scholarly publications.						
Desirable						
1. Study abroad on museums, travel abroad in at least 2 countries notable for museum development.						
2. Diploma in Museology or equivalent, knowledge and experience in museological philosophy and technique.						
Note : Qualifications relaxable by the appointing authority on the recommendations of the Selection Committee for the candidates otherwise well qualified.						

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
<p>Absorption/Deputation :</p> <p>Officer from Central/State Government, Universities/autonomous organizations of Central/State Government, working :</p> <p>(i) on analogous posts, or</p> <p>(ii) at least 5 years regular service in the posts carrying pay scales of Rs. 12,000-16,500/- or equivalent, or</p> <p>(iii) at least 10 years service in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- and possessing qualification & experience required for direct recruitment as mentioned in column 8 of the Recruitment Rules.</p> <p>(The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).</p> <p>(Maximum Age limit for deputation/absorption will be 56 years).</p> <p>(Age would be counted on the closing date of application).</p>	<p>Selection Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, Allahabad Museum Society. 2. One member to be nominated by the Executive Committee of the Society. 3. Two experts to be recommended by Society and approved by Government of India. 4. One representative of the Govt. of India not below the rank of Joint Secretary to the Government of India. 5. SC/ST member to be nominated by the Society, not below the rank of Professor (Indian University) or Joint Secretary, Government of India. 	<p>For absorption the proposal will be referred to Ministry of Culture for approval.</p>

The 7th October 2005

dated, 7th October, 2005.

G.S.R. No. F. 10-26/2004/M.I.—

G.S.R. No. In pursuance of Article 6 of the Memorandum of Association of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi, the President is pleased to reconstitute the Board of Management of the Institute for a period of three years from the date of the issue of the Notification or till the Board of Management is reconstituted, which ever is earlier. The composition of the Board of Management will be as follows.

<u>Sl. No.</u>	<u>COMPOSITION</u>	<u>STATUS</u>	<u>NOMINATION</u>
1	Vice Chairman	Ex-officio	DG, National Museum & Vice Chancellor of the Institute
2	Director	Ex-officio Member	Director, NMI
3	Dean of Academic Affairs and One Head of the Department of Institute (by rotation) to be nominated by the Chairman on recommendation of the Vice Chancellor	Ex-officio Member	Dean of Academic Affairs and Head of the Department of History of Art (Dr. Anupa Pande)
4	Two nominees of that Department of the Central Government dealing with the affairs of the Institute, one of the whom shall be the Financial Adviser	-do-	(i) Financial Adviser (Culture) (ii) Joint Secretary in charge of (Museum Division of Ministry of culture)
5	One representative of the Department of Education Government of India	-do-	Dr. D.K. Paliwal, Deputy Educational Adviser, Department of Education

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 6. One Vice chancellor of a University which offers academic courses in these subjects to be nominated by the Chairman of the Institute in consultation with the Chairman University Grants Commission | Member | Prof. Asis Kumar Banerjee. Vice chancellor, Calcutta University |
| 7. One representative of the University Grants Commission nominated by the Chairman University Grants Commission | -do- | Prof. R.G. Pandeya, Retired Director, Parsya Niketan of Advance Studies in Indology and Architecture, Birla Museum, Laxmi Narain Giri, Bhopal-462 004 (M.P) |
| 8. Three Eminent scholars Administrators Nominated by the Chairman in consultation with the Central Government | Members | (i) Prof. A. Ramchandran, Eminent Painter
(ii) Prof. K.M. Shrimali, Professor of History, Delhi University
(iii) Dr. Gautam Sengupta, Director of Archaeology & Museums, Government of West Bengal |
| 9. (i) Director General Archaeological Survey of India
(ii) Director General Anthropological Survey of India
(iii) Director, National Gallery of Modern Art, Delhi
(iv) Director, National Archives of India
(v) Director, National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property Lucknow | Ex-officio Members | (i) DG, ASI
(ii) DG, Anthropological Survey of India
(iii) Director, NGMA (Delhi)
(iv) Director, NAI
(v) Director, NRLC |
| 10. The Registrar, National Museum Institute | Non-Member Secretary | The Registrar, National Museum Institute |

ANJU BHALLA
Under Secy.